



## चोरी की भैंस व अवैध असलहा सहित चोरी की घटना के 02 वांछित अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कुरारा पुलिस द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर कि जंगल से दो संदिग्ध व्यक्ति भैंस लेकर जा रहे हैं, दबिस देकर दोनों संदिग्ध व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया गया तो दोनों अभियुक्तों द्वारा यह जानते हुए कि पुलिस द्वारा घेर लिया गया है, जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर किए गए, इसी क्रम में पुलिस टीम द्वारा अपना बचाव करते हुए बहादुरी के साथ दोनों अभियुक्तों को तमंचा लोड करने से पहले पकड़ लिया गया जिससे कि अभियुक्त तमंचा लोड कर आगे फायर नहीं कर सके, दोनों गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर बताया कि उनका नाम आसिफ मंसूरी व सोहेल मंसूरी है, दोनों एक अन्य अभियुक्त हसीन कुरैशी के साथ भैंस चोरी कर जंगल में छुपा दिए थे, जिसे आज अंधेरे में निकाल कर मूसा नगर बेचने जा रहे थे, उनका एक अन्य साथी हसीन कुरैशी पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात दूसरी भैंस को जंगल से निकाल कर पहले ही ले जा चुका है। उपरोक्त दोनों गिरफ्तार अभियुक्त 1). आसिफ मंसूरी उर्फ बब्लू पुत्र अल्ला रकखू 2). सोहेल मंसूरी पुत्र अल्ला रकखू निवासीगण मोहल्ला इस्लामाबाद थाना कदौरा जनपद जालौन थाना कुरारा पर भैंस चोरी में पंजीकृत मु0अ0सं0 231/2021 धारा 379/411 IPC में वांछित हैं, गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अदद तमन्चा देशी नाजायद व 04 अदद जिन्दा कारतूस व 02 अदद खोखा कारतूस व 01 चोरी की भैंस बरामद कर थाना कुरारा पर मु0अ0सं0 236/2021 धारा 307 IPC मु0अ0सं0 237/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 238/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियाग पंजीकृत कर जेल भेजा गया।

### बरामदगी:-

- 1) 02 अदद तमन्चा देशी नाजायद
- 2) 04 अदद जिन्दा कारतूस
- 3) 02 अदद खोखा कारतूस
- 4) 01 चोरी की भैंस

### गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 शिवदान सिंह
  2. उ0नि0 पंकज तिवारी
  3. हे0का0 अतीन्द्र सिंह
  4. का0 इकलाख हुसैन
  5. का0 उपेन्द्र कुमार
- थाना कुरारा जनपद हमीरपुर

